

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 641]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2014—पौष 9, शक 1936

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1830.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर पालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष / पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर पालिका परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	अंकों में शब्दों में	(6)	(7)
1	नगर पालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी.	अध्यक्ष	-	श्रीमती आरती अशोक शुक्ला	भारतीय जनता पार्टी
2		पार्षद	1	नरेन्द्र गुड्डू ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	संतोष (नानू) पंजवानी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4		पार्षद	3	चितरंजन (गप्पू) तिवारी	भारतीय जनता पार्टी
5		पार्षद	4	अलकेश रजक	भारतीय जनता पार्टी
6		पार्षद	5	श्रीमति सरोज साहू W/O उत्तम साहू	भारतीय जनता पार्टी
7		पार्षद	6	छः रामप्यारी परते	भारतीय जनता पार्टी
8		पार्षद	7	सुरेन्द्र करोसिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
9		पार्षद	8	पुरुषोत्तम साहू (परसू)	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	सबा वाहिद खॉन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
11		पार्षद	10	नसीमा नियाज	नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी
12		पार्षद	11	ग्यारह मनुचंद सोनी	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	नगर पालिका परिषद्, सिवनी, जिला सिवनी.	पार्षद	12	बारह	श्रीमती विमला यादव (रंजीत) यादव	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	रफत इब्राहीम कुरैशी	निर्दलीय
15		पार्षद	14	चौदह	शीरी अफरोज पिता अ. रफीक	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	शबनम खालिद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
17		पार्षद	16	सोलह	अभिषेक दुबे (रिंकू)	भारतीय जनता पार्टी
18		पार्षद	17	सत्रह	श्रीमति चंद्रकांता महोबिया	भारतीय जनता पार्टी
19		पार्षद	18	अठारह	“दिलीप गोस्वामी”	भारतीय जनता पार्टी
20		पार्षद	19	उन्नीस	“संजीव उर्फ मोनू उइके”	निर्दलीय
21		पार्षद	20	बीस	अवधेश (पिंकी) त्रिवेदी	भारतीय जनता पार्टी
22		पार्षद	21	इक्कीस	उर्मिला भारद्वाज	निर्दलीय
23		पार्षद	22	बाईस	मंजू सतीश चिंटोले	इंडियन नेशनल कांग्रेस
24		पार्षद	23	तेईस	शफीक (पार्षद)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
25		पार्षद	24	चौबीस	श्रीमति वंदना श्रवण बर्वे	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-65-01-2014-तीन-नपा-1831.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगर परिषद्, बरघाट, जिला सिवनी के माह दिसम्बर 2014 में कराये गये आम निर्वाचन में निम्नलिखित व्यक्ति अध्यक्ष/ पार्षद निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष/ पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	नगर परिषद्, बरघाट, जिला सिवनी.	अध्यक्ष	-	-	-	रंजीत वासनिक “दारू”	निर्दलीय
2		पार्षद	1	एक	एक	रामसिंह कंगाली	भारतीय जनता पार्टी
3		पार्षद	2	दो	दो	श्रीमति नीलिमा हेमन्त गजभिये	निर्दलीय
4		पार्षद	3	तीन	तीन	अंकित कमलेशिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5		पार्षद	4	चार	चार	कल्पना राकेश जैन	इंडियन नेशनल कांग्रेस
6		पार्षद	5	पांच	पांच	कृष्णा ढबू अहिरवार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
7		पार्षद	6	छः	छः	महेन्द्र महोबिया	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8		पार्षद	7	सात	सात	छम्मन शंकरलाल राहंगडाले	भारतीय जनता पार्टी
9		पार्षद	8	आठ	आठ	कंचन सिंह ठाकुर	भारतीय जनता पार्टी
10		पार्षद	9	नौ	नौ	हेमन्त राहंगडाले	भारतीय जनता पार्टी
11		पार्षद	10	दस	दस	पंकज वासनिक	निर्दलीय
12		पार्षद	11	ग्यारह	ग्यारह	कुंवरसिंह राजपूत	इंडियन नेशनल कांग्रेस
13		पार्षद	12	बारह	बारह	कविता सुरेन्द्र जायसवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14		पार्षद	13	तेरह	तेरह	नीरज सूर्यवंशी	इंडियन नेशनल कांग्रेस
15		पार्षद	14	चौदह	चौदह	निधी ऋषभ जायसवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
16		पार्षद	15	पन्द्रह	पन्द्रह	श्रीमति गीता तेकाम	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./-

(गिरीश शर्मा)

उपसचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.